



## प्रेस नोट थाना हसनपुर

दिनांक 05.06.2021

### बाद पुलिस मुठभेड राहगीरों से लूट व चोरी करने वाले 04 शातिर बदमाश गिरफ्तार, लूट/चोरी का माल, अवैध असलहे व लूट में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्रीमती श्रेष्ठा ठाकुर के निकट पर्यवेक्षण में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा कल दिनांक 04.06.2021 की रात्रि बाद पुलिस मुठभेड लूट व चोरी के अभियोग में वांछित 04 शातिर बदमाशों को लूट/चोरी के माल व अवैध असलहों सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना हैं कि कल दिनांक 04.06.2021 की रात्रि करीब 20.30 बजे थाना हसनपुर पुलिस पर सूचना मिली की चकोरी रोड डालचन्द के गोदाम के पास कुछ बदमाश खडे है जो कही किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है । सूचना पर थाना हसनपुर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची व डालचन्द के गोदाम की आढ लेकर इन बदमाशों को आत्मसमर्पण के लिये कहा तो पकडे जाने से बचने के लिये एक बदमाश ने जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया जिससे पुलिसकर्मी बाल बाल बचे । और फायरिंग करने का मौका न देते हुये पुलिस टीम द्वारा 04 अभियुक्त 1. रिजवान 2. मोईद 3. लक्की व 4. अमीर आलम को मय अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 नाजायज चाकू, आईफोन-6 मोबाईल, सैमसंग कीपैड मोबाईल, 04 जोड़ी पाजेब, 04 जोड़ी बिछुआ, 1040/- रुपये नगद व प्लेटिना मोटर साइकिल बरामद हुए । बरामद मोटर साइकिल प्लेटिना रजि0न0 UP23 AB 2726 के कोई कागजात न होने के कारण मौके पर धारा 207 M.V. Act के अन्तर्गत सीज किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना हसनपुर पर मु0अ0स0 234/21 धारा 307 भादवि, मु0अ0स0 235/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम रिजवान, मु0अ0स0 236/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम मोईद व मु0अ0स0 237/21 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम लक्की पंजीकृत किया गया ।

#### पुछताछ विवरण:-

बरामद 02 मोबाइल फोन व पैसों के सम्बंध में पूछताछ करने पर अभियुक्तगण द्वारा इन्हें पिछले महीने दिनांक 23.05.2021 की रात्रि रामपुर भूड रोड पर एक मोटरसाइकिल सवार से लूटना बताया गया (सम्बन्धित मु0अ0स0 206/21 धारा 392 भादवि थाना हसनपुर) तथा बरामद 04 जोड़ी पाजेब व 04 जोड़ी बिछुआ को दिनांक 27.04.21 की रात्रि कस्बा हसनपुर की गोकुलधाम कॉलोनी में एक मकान से चोरी करने (सम्बन्धित मु0अ0स0 178/21 धारा 380 भादवि थाना हसनपुर) व चोरी के बाकी सामान को राहगीरों को बेचकर पैसे को मौज-मस्ती में खर्च करने का इकबाल



### गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. रिजवान पुत्र जाहिद उर्फ भोलू निवासी ग्राम शकरपुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
2. मोईद मलिक पुत्र तहसीन निवासी ग्राम सिहाली जागीर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. लक्की पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम निपनिया थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।
4. अमीर आलम पुत्र तुल्लन निवासी ग्राम बागड़पुर थाना रजबपुर जनपद अमरोहा ।

### बरामदगी:-

1. 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 02 नाजायज चाकू ।
2. आईफोन-6 मोबाईल, सैमसंग कीपैड मोबाईल, 04 जोडी पाजेब व 04 जोडी बिछुआ (लूट व चोरी का माल) ।
3. 1040/- रुपये नगद व प्लेटीना मोटर साईकिल रजि0न0 UP23 AB 2726 ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त रिजवान :-

1. मु0अ0स0 234/2021 धारा 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा (पुलिस मुठभेड) ।
2. मु0अ0स0 235/2021 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0स0 206/2021 धारा 392 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0स0 178/2021 धारा 380 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

### आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोईद:-

1. मु0अ0स0 234/2021 धारा 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा (पुलिस मुठभेड) ।
2. मु0अ0स0 236/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0स0 206/2021 धारा 392 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0स0 178/2021 धारा 380 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त लक्की:-**

1. मु0अ0स0 234/2021 धारा 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा (पुलिस मुठभेड) ।
2. मु0अ0स0 237/2021 धारा 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0स0 206/2021 धारा 392 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0स0 178/2021 धारा 380 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

### **आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमीर आलम:-**

1. मु0अ0स0 234/2021 धारा 307 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा (पुलिस मुठभेड) ।
2. मु0अ0स0 206/2021 धारा 392 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

अभियुक्तगणों के शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

### **पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री सुक्रमपाल राणा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. हे0का0 184 राजकुमार मलिक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. का0 1241 मौहम्मद आजम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. का0 1022 अर्ष सत्यांक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. का0 1195 राकेश थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

